



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना सैंया जनपद आगरा । दिनांक 30.07.2022

सीआईडब्ल्यू टीम व थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा बडी कार्यवाही करते हुये अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले कुल 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 140 किलोग्राम (01 कुन्टल 40 किलोग्राम) अवैध गाँजा, 02 कार व अवैध असलाह व मोबाइल बरामद...

जनपद में चोरी, लूट, जुआ, सट्टा, अवैध नशील पदार्थ आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं इनामी, गैंगस्टर, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में थाना सैंया पुलिस टीम को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनांक 29.07.2022 को सीआईडब्ल्यू टीम व थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ लोग दो गाडियों में गाँजा भरकर धौलपुर की तरफ से आगरा की ओर आ रहे है, अगर आप जल्दी करें तो पकडे जा सकते है ।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही:-

उपरोक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुँचकर सघनता से चैकिंग की जा रही थी। कुछ देर बाद धौलपुर की तरफ से दो गाडियाँ आती देखकर पुलिस टीम द्वारा इशारा कर रुकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा एक वारगी दविश देते हुये आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 02 गाडियों सहित कुल 06 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 140 किलोग्राम अवैध गाँजा, घटना में प्रयुक्त 02 कार मोबाइल, 02 तमंचे मय 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुये। अवैध गाँजा बरामदगी के आधार पर थाना सैंया पर मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम राजेश कुमार, पीयूष सिसौदिया, पंकज सिंह, ओमप्रकाश, अशोक, कृष्णाकान्त शर्मा बताया गया। कडाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग अवैध गांजे के व्यापार करते हैं। हम सभी एक साथ मिलकर उड़ीसा राज्य से विशाखापट्टनम् से पास आरकू नाम की जगह से ₹0 1800/- प्रति कि०ग्रा० की दर से गांजा खरीदकर लाते हैं। ये लोग हमें अपने ठिकाने पर नहीं ले जाते हैं बल्कि किसी अलग स्थान पर गाड़ी बुलाकर हमारी गाड़ी में गांजा भरवा देते हैं। उसके बाद हम लोग अवैध गांजे को मंहगे रेट पर बेचते हैं। इस तरह से हमें अच्छी कमाई हो जाती है। हम लोग करीब 01 सप्ताह पहले 02 गाड़ी लेकर उड़ीसा गये थे। हम लोगो ने वहां से दोनों गाड़ियों में कुल 140 किग्रा० गांजा के कुल 70 पैकेट खरीदे थे, जिन्हें हम दोनों गाड़ियों में आधा-आधा भरकर वापस आगरा आ रहे थे।पुलिस टीम द्वारा हम लोगो को अवैध गांजा व अवैध असलाह सहित पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. राजेश कुमार पुत्र स्व० श्यामबाबू निवासी 6बी/31 सूरजपुर, टी.पी.नगर थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. पीयूष सिसौदिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी 945 वघेल कालोनी, टेडी बगिया थाना एत्मादौला जनपद आगरा।
03. पंकज सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी लोहरी पाटी, शनि देव मन्दिर रोड रूनक्ता थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
04. ओमप्रकाश पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम मांगरौल गुर्जर थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
05. अशोक पुत्र गोपालदास निवासी नगला करन सिंह सेवला थाना सदर जनपद आगरा।
06. कृष्णाकान्त शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी रायभा थाना अछनेरा जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण:-

01. 140 किलोग्राम (01 कुन्टल, 40किलोग्राम अवैध गांजा)।
02. 02 अदद अवैध देशी तमंचा मय 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
03. 07 अदद मोबाइल।
04. ₹0 900/-।
05. स्विफ्ट कार नम्बर UP 80 FT 7009।
06. ब्रेजा कार नम्बर UP 80 FE 8358।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. अभियुक्त राजेश कुमार:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 240/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

02. अभियुक्त पीयूष सिसौदिया:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

03. अभियुक्त पंकज सिंह:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

04. अभियुक्त ओमप्रकाश:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 241/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

05. अभियुक्त अशोक कुमार:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

06. अभियुक्त कृष्णकान्त शर्मा:-

01. मु0अ0सं0 239/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैंया जनपद आगरा ।

नोट:- अभियुक्तगणों के पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्रपाल सिंह थाना सैंया जनपद आगरा ।
02. निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार प्रभारी सीआईडब्ल्यू टीम जनपद आगरा ।
03. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना सैंया जनपद आगरा ।
04. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना सैंया जनपद आगरा ।
05. का0 नासिम अली, का0 रविकान्त थाना सैंया जनपद आगरा ।
06. है0का0 रामवीर सिंह, है0का0 अरविन्द कुमार सिंह, का0 ऋषि कुमार, का0 हरेन्द्र सिंह सीआईडब्ल्यू टीम जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।